



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27—फरवरी 2, 2007 (माघ 7, 1928)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 27—FEBRUARY 2, 2007 (MAGHA 7, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जनवरी 2007

सं. डीपी/कार्मिक/22006/0091/ए-34012/7/2005--श्री डी. एन. कपूर, वैयक्तिक सहायक ने 04.01.2007 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति पर निजी सचिव, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. के. रंजन
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 12 जनवरी 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/00010/ए-20023/6/83--श्री ओम प्रकाश ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.12.2006 (अपराह्न) से वरिष्ठ लोक अभियोजक, के.अ. ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. के. रंजन
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जनवरी 2007

सं. ए.छ:-1/2006-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित व्यक्तियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- में सहायक कमाण्डेन्ट के पद पर बल की समग्र नफरी में, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सौहार्द नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	ज्वाइनिंग की तारीख
1	2	3
1.	श्री प्रणव आनन्द झा	01.12.2006 (पूर्वाह्न)
2.	श्री मोहम्मद तेहाल आलम	01.12.2006 (पूर्वाह्न)
3.	श्री राज कुमार माजिल्लया	01.12.2006 (पूर्वाह्न)
4.	श्री अनुराग राज	02.12.2006 (पूर्वाह्न)
5.	श्री मिथिलेश कुमार	02.12.2006 (पूर्वाह्न)

1	2	3
6.	श्री बलजिन्दर सिंह	01.12.2006 (पूर्वाह)
7.	श्री निशांत कुमार चौधरी	01.12.2006 (अपराह)
8.	श्री गिरीश चन्द सिंह सोनटियाल	01.12.2006 (पूर्वाह)
9.	श्री जगदेव सिंह	01.12.2006 (पूर्वाह)
10.	श्री विजय कुमार साहु	01.12.2006 (अपराह)
11.	श्री अदिल हसन	01.12.2006 (पूर्वाह)
12.	श्री अरविन्द कुमार चौबे	01.12.2006 (अपराह)
13.	श्री नीरज कुमार	01.12.2006 (पूर्वाह)
14.	श्री ओमनाथ चट्टराज	01.12.2006 (पूर्वाह)
15.	श्री जंगशेर	01.12.2006 (पूर्वाह)
16.	श्री सुरेश कुमार यादव	05.12.2006 (अपराह)
17.	श्री लक्ष्मी नारायण उपाध्याय	01.12.2006 (अपराह)

2. उन्होंने आन्तरिक सुरक्षा अकादमी, के.रि.पु. बल, माऊन्ट आबु में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट कर दी है और उन्होंने उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से उनके पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 8 जनवरी 2007

सं. ओ.दो.-4025/06-कार्मिक-1--श्री सन्त सिंह, उप कमान्डेन्ट (इरला-4025), 104 बटालियन, आर.ए.एफ./केरिपु बल, का भारतीय स्टेट बैंक पटियाला में सहायक मैनेजर (सुरक्षा) के पद पर चयन होने के परिणामस्वरूप अधिकारी द्वारा दिया गया त्यागपत्र नोटिस सक्षम प्राधिकारी ने दिनांक 01.04.2006 (पूर्वाह) से स्वीकार कर लिया था। अधिकारी ने भारतीय स्टेट बैंक पटियाला में दिनांक 10.04.2006 को पूर्वाह में रिपोर्ट कर दिया तथा अधिकारी को केरिपु बल से दिनांक 01.04.2006 (पूर्वाह) से कार्यमुक्त कर दिया गया था। तदनुसार केरिपु बल से कार्यमुक्त होने की तिथि से भारतीय स्टेट बैंक पटियाला में रिपोर्ट करने की तिथि तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.04.2006 से 09.04.2006 तक कुल 09 दिनों को 104 बटालियन आर.ए.एफ. के कार्यालय आदेश संख्या-जी.दो.-1/2006-104-सी.बी. दिनांक 08.12.2006 के तहत अर्जित अवकाश में नियमित कर दिया है। अतः इन्हें केरिपु बल की नफरी निकालने की तिथि को निम्नानुसार पढ़ा जाये :-

के लिए	पढ़ा जाये
दिनांक 01.04.2006 से पूर्वाह	दिनांक 10.04.2006 पूर्वाह

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 10 जनवरी 2007

सं. ओ-दो-3712/06-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर नागसेन प्रकाश साखरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 06.12.2006 (पूर्वाह) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 145 बटालियन, के.रि.पु. बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 12 जनवरी 2007

सं. ओ.दो.-6460/2007-कार्मिक-1--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक-सेवा-निवृत्त होने सम्बन्धी नोटिस दिनांक 27.09.2006 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री विनय कुमार सिंह, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-6460), 172वीं बटालियन, के.रि.पु. बल, ने दिनांक 01.01.2007 (पूर्वाह) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.01.2007 (पूर्वाह) से निकाला जाता है।

रणजीत सिंह

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 जनवरी 2007

सं. पी.सात-4/2006-कार्मिक-3--सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु तक पहुंचने के कारण कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र के.रि.पु. बल, नीमच के श्री भवर लाल (इरला संख्या-4656) ने प्रशासनिक अधिकारी का पदभार दिनांक 30.11.2006 (अपराह) को त्याग दिया।

के. के. शिवा प्रसाद

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

दिनांक 10 जनवरी 2007

सं. पी.सात-4/2006-कार्मिक-3--दिनांक 20.12.2006 (अपराह) को महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली में अपर महानिदेशक (मुख्यालय) के व्यक्तिगत अनुभाग में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव श्री आशिक अली (इरला सं.-4742) की हृदय गति रुक जाने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में भारत सरकार खेद के साथ अधिसूचना जारी करती है। तदनुसार उन्हें दिनांक 20.12.2006 (अपराह) से महानिदेशालय के.रि.पु. बल, नई दिल्ली की नफरी से निकाला जाता है।

के. के. शिवा प्रसाद

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 12 जनवरी 2007

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक.1/05--राष्ट्रपति, केओसु बल के निम्नलिखित उप कमान्डेन्ट को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में कमान्डेन्ट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	कमान्डेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
1.	श्री संजय कुमार	आर.एस.टी.पी.एस. रामागुन्डम्	29.12.2006

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक.1/06--राष्ट्रपति, केओसु बल के निम्नलिखित सहायक कमान्डेन्टों को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में उप कमान्डेन्ट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	उप कमान्डेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	बी. एस. वशिष्ठ	बी.आई.ओपी.- डी.ई.पी.-05	14.11.2006
2.	अशोक टिक्कू	वी.आई.पी. सेक्युरिटी, नई दिल्ली	01.12.2006
3.	दलेल सिंह	जी.बी.एस. दिल्ली	27.11.2006 (अपराह)
4.	एस. एस. पठानिया	एम.बी.आर मेघातबुरू	23.11.2006 (अपराह)
5.	ए. के. चतुर्वेदी	आर.टी.सी. बरवाह	11.12.2006
6.	योगेन्द्र सिंह	जी.बी.एस. दिल्ली	14.11.2006
7.	एस. एम. राव दीक्षित	मुम्बई एयरपोर्ट	06.12.2006
8.	अनवर खान	8वीं आ.वा. किशतवाड	20.12.2006 (अपराह)
9.	रूपिन्द्र सिंह	द्वितीय आ.वा. दिल्ली	18.12.2006
10.	अरूण राय कोशिक	एन.ई.एस. मुख्यालय, कोलकाता	26.12.2006

1	2	3	4
11.	रविन्द्र कुमार शर्मा	गया एयरपोर्ट	04.12.2006
12.	डी. डी. यादव	टी.एच.डी.सी. टेहरी	18.12.2006
13.	वी. के. शर्मा	राजकोट एयरपोर्ट	04.12.2006
14.	एस. एस. नेगी	एयरपोर्ट सेल, बल मुख्यालय	24.11.2006

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक.1/07--राष्ट्रपति, श्री सुन्दर वाडी, सहायक कमान्डेन्ट को नियमित पदोन्नति पर केओसुब में उप कमान्डेन्ट के पद पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। उन्होंने केओसुब इकाई, बीएसपी भिलाई में दिनांक 08 दिसम्बर 2006 (पूर्वाह) से उप कमान्डेन्ट के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015(2)/2/2003/कार्मिक.1/08--राष्ट्रपति, केओसु बल के निम्नलिखित उप कमान्डेन्ट को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में कमान्डेन्ट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	कमान्डेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
1.	श्रीमती साहिमा हनन दत्ता	द्वितीय आरक्षित वाहिनी महिपालपुर, नई दिल्ली	19.12.2006 (अपराह)

नोट :- उपरोक्त पदोन्नति श्री एन0 के0 भट्टनागर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर कोर्ट केस सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 954/2006 के निर्णय के अधीन होगी।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 15 जनवरी 2007

सं. ई-16015(2)/2/2007/कार्मिक.1/09--राष्ट्रपति, केओसु बल के निम्नलिखित कमान्डेन्ट को 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ कमान्डेन्ट के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर

उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय/इकाई जहां पर कार्यभार ग्रहण किया	वरिष्ठ कमान्डेन्ट के रूप में कार्यभार संभालने की दिनांक
1.	श्री सी. के. बिष्ट	बी.एस.एल. बोकारो	01.01.2007

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 12 जनवरी 2007

सं. ई-28017/06/नोटि./2007/कार्मिक-2/131--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एस. एन. मांझी सरकारी सेवा से दिनांक 31.12.2006 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने सहायक कमान्डेन्ट/जे.ए.ओ. के.ओ.सुब डीएम बटालियन मुण्डली का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

दिनांक 16 जनवरी 2007

सं. ई-28017/06/नोटि./2007/कार्मिक-II/161--केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-ए के अधीन सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप श्री एस. श्रीनिवासन ने दिनांक 01.01.2007 (पूर्वाह) से सहायक कमान्डेन्ट/जे.ए.ओ. के.ओ.सुब समूह मुख्यालय, चेन्नई के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-28017/06/नोटि./2007/कार्मिक-2/162--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एम. के. दास सरकारी सेवा से दिनांक 31.12.2006 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने कमान्डेन्ट, के.ओ.सुब इकाई डी.एस.पी. दुर्गापुर का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

सं. ई-28017/06/नोटि./2007/कार्मिक-2/163--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एम. श्रीनिवासन सरकारी सेवा से दिनांक 31.12.2006 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा उन्होंने वरिष्ठ कमान्डेन्ट, के.ओ.सुब इकाई एफ.ए.सी.टी. उद्योगमंडल का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

वित्त मंत्रालय

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

नाशिक रोड, दिनांक 8 जनवरी 2007

विषय : राजपत्रित अधिकारी वर्ग-'ख' की तदर्थ पदोन्नति

सं. 925/जी-स्था.-18-1--श्री आर. एम. खोत, निरीक्षक नियंत्रण और श्री जे. के. अमेसर, निरीक्षक नियंत्रण, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक रोड को उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में दिनांक 02.01.2007 से 31 मार्च 2007 तक या यह पद नियमित आधार पर भरे जाने तक जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है।

प्रकाश नारायण
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 10 जनवरी 2007

सं. 3-जी.ई.-I/13-2006--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं :--

1. श्री मान सिंह--अधिवर्षिकी दिनांक 31.12.2006 (अपराह)

दीपक नारायण
सहा. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कार्मिक)

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 15 जनवरी 2007

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-251--महानिदेशक, लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में अस्थायी आधार पर दिनांक 02.01.2007 (पूर्वाह) से सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ग्रुप 'बी') के रूप में अगले आदेशों तक सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी कोड सं.	नाम
1	2	3
		सर्वश्री
1.	0640	श्रीमती गौरी सिवारमन
2.	0669	महा प्रसाद
3.	0752	बच्चू सिंह
4.	0763	विरेन्द्र सिंह नेगी
5.	1175	राजपाल
6.	0847	योगेन्द्र बिष्ट

1	2	3
7.	0861	ब्रह्म सिंह कैन
8.	1236	संदीप शर्मा
9.	1243	सतीश कुमार
10.	1251	संजीव कुमार वर्मा
11.	1220	अतुल भगत
12.	0956	प्रवीन कुमार टुटेजा
13.	0924	कमल सूद
14.	1373	अशोक कुमार
15.	1213	श्रीमती सुगंधी रामानाथन
16.	1181	श्रीमती सुनीता चौहान
17.	1248	कुमार दत्त शर्मा
18.	1025	ईश्वर चन्द
19.	1028	संजीव कुमार
20.	1318	श्रीमती सीमा मेंहदीरता
21.	1402	बिपलव कुमार सहू

सभी पदोन्नत अधिकारी कृपया उनकी पदोन्नति की तिथि के एक माह के अन्दर स्थापना अनुभाग को उनके वेतन निर्धारण सम्बन्धी विकल्प प्रस्तुत करें।

क. प्रसाद
निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 30 नवम्बर 2006

सं. प्रशा.-I/1038-xxv/2006-07/1203--महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पश्चिम बंगाल ने श्री अजित कुमार घोष, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 01.12.2006 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, इनमें से जो भी बाद में हो, से 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान में, लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

प्रोन्नति होने पर उनका वेतन एफ.आर. 22 I (क) (i) के अधीन निर्धारित किया जाएगा तथा इसके लिए वह इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अन्दर इससे सम्बन्धित विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

उनका तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

(प्राधिकार : महालेखाकार के दिनांक 30.11.2006 का आदेश)

जे. आर. विश्वास
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशा.-I/1366-II/2006-07/1204--महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पश्चिम बंगाल ने श्री प्रकाश चन्द्र बसु, लेखा अधिकारी को दिनांक 01.12.2006 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, इनमें से जो भी बाद में हो, से 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में, वरिष्ठ लेखा अधिकारी के उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति दी है।

प्रोन्नति होने पर उनका वेतनमान एफ.आर. 22 I (क) (i) के अधीन निर्धारित किया जाएगा तथा इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अन्दर, वह इससे सम्बन्धित अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

(प्राधिकार : महालेखाकार के दिनांक 30.11.2006 का आदेश)

जे. आर. विश्वास
उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांक 9 जनवरी 2007

सं. प्रशा.-I/1038-xxiv/2006-07/340--महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पश्चिम बंगाल ने श्री समीर कुमार पालित, सहायक लेखा अधिकारी एवं श्री स्वपन कुमार बराट, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 02.01.2007 (पूर्वाह्न) या उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक, इनमें से जो भी बाद में हो, से 7,500-250-12,000/- रुपये के वेतनमान में, लेखा अधिकारी के रूप में प्रोन्नति दी है।

लेखा अधिकारी के रूप में प्रोन्नति होने पर श्री पालित एवं श्री बराट, इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक महीने के अन्दर वेतन निर्धारण हेतु, एफ.आर. 22 I (क) (i) के अधीन अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

उनका तैनाती आदेश अलग से जारी किया जाएगा।

(प्राधिकार : महालेखाकार के दिनांक 07.12.2006 का आदेश)

जे. आर. विश्वास
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय - प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 10 जनवरी 2007

सं. प्रशासन-III/पैन/5-2/खंड-I/391--कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल के श्री भिमदेव मंडल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ने दिनांक 30.11.2006 (अपराह्न) से प्रभावी वार्धक्य पर सेवा निवृत्ति ग्रहण की।

बी. के. मुखर्जी
उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक नई दिल्ली-110066, दिनांक 12 जनवरी 2007				1	2	3	4
सं. प्रशा.-1/1172/I/XVII--राष्ट्रपति, नीचे, दर्शाए गए भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों को इसी सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (वेतनमान 18,400-500-22,400/- रुपये) पर अधिकारी के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेशों पर्यंत सहर्ष नियुक्त करते हैं :--				7.	आलोक चतुर्वेदी	10.05.2006	
				8.	डी. सी. एस. नेगी	11.05.2006	
				9.	आर. के. चौधरी	12.05.2006	
				10.	संजीव कुमार	22.05.2006	
				11.	अविनाश दीक्षित	22.05.2006	अधोवर्ती नियमों के अधीन
				12.	श्रीमती अनुराधा प्रसाद	22.05.2006	अधोवर्ती नियमों के अधीन
				13.	राकेश सहगल	22.05.2006	सैद्धान्तिक
				14.	श्रीमती रसिका चौबे	22.05.2006	अधोवर्ती नियमों के अधीन
				15.	आर. एन. दास	22.05.2006	अधोवर्ती नियमों के अधीन
				16.	एस. पी. एन. सिंह	22.05.2006	
				17.	प्रवीन कुमार	11.05.2006	
				18.	एस. जी. दस्तीदार	11.05.2006	
				विश्वजीत सहाय रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशासन)			

रक्षा मंत्रालय (भारतीय आयुध निर्माणियां सेवा) आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता, दिनांक 2 जनवरी 2007					
सं. 07/ए/जी/2007--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को कनिष्ठ समय-मान अधिकारी ग्रेड में अर्थात् भा.आ.नि.से. में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान पर सहायक निदेशक/सहायक कार्य प्रबन्धक के पद में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से स्थायी करते हैं :--					
क्रम सं.	नाम	व्यक्तिक संख्या	पदनाम	भा.आ.नि.से. ग्रहण की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री				
1.	शंकर थम्मु डोला	991946	जे. टी. एस.	01.07.2002	24.12.2005
2.	हंतल भीमसेन	991926	जे. टी. एस.	01.01.2002	26.05.2006
3.	मूरथी बी. कृष्णा	991962	जे. टी. एस.	01.01.2003	24.12.2005
4.	नरेन्द्र एन. एन.	991985	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
5.	नागाचंद्र जेड.	991964	जे. टी. एस.	01.01.2003	16.12.2005
6.	श्रीवास्तव एम. एस. उर्मी	991993	जे. टी. एस.	01.07.2003	03.07.2006

1	2	3	4	5	6
7.	सुलेमान एस. सिद्दिकी	991998	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
8.	त्रिपाठी राजेश प्रसाद	992029	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
9.	श्रीवास्तव प्रेमचंद्र	992030	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
10.	कुमार आशुतोष	992028	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
11.	अग्रवाल अमित कुमार	992032	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
12.	यादव कुलबीर सिंह	992034	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
13.	गौड़ वैभव कुमार	992035	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
14.	जंधेल संतोष कुमार	992037	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
15.	राव पैडी अंजानी	992038	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
16.	कुमार पवन	992039	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
17.	मीना कमल सिंह	991969	जे. टी. एस.	01.07.2003	16.12.2005
18.	कुजुर रोहित राजीव पी.	992021	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
19.	सूषे मनोज मारुति	992023	जे. टी. एस.	01.07.2003	02.01.2006
20.	पट्टनायक प्रभु कल्याण	992042	जे. टी. एस.	01.07.2003	01.07.2006
21.	शर्मा सतीश	992051	जे. टी. एस.	01.07.2003	01.07.2006
22.	कुमार अमित	992045	जे. टी. एस.	01.07.2003	01.07.2006

प्रेम प्रकाश
उप निदेशक/जी
कृते महानिदेशक, आयुध निर्माणियां

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

सं. ए.19011/304/2006.स्था.ए.पी.पी.--श्री एच. के. दासगुप्ता,
उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य
आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2006
(अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 4 जनवरी 2007

सं. 10/बी/ए-35018/सी.वी.ओ./2006/19ए--कार्मिक एवं प्रशिक्षण
विभाग की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी श्रीमती आरती श्रीवास्तव,
भारतीय आयुध निर्माणी सेवाएं (90) को मुख्य सतर्कता अधिकारी,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय मुख्यालय, कोलकाता के पद पर
15.11.2006 से प्रभावित तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए अथवा

आगामी आदेशों तक, जो भी घटना पहले घटित हो, प्रतिनियुक्ति पर
नियुक्त करते हैं।

श्रीमती आरती श्रीवास्तव, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में मुख्य
सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके
पैतृक संगठन के 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान के वेतन
का ग्रेड जमा यथास्वीकार्य प्रतिनियुक्ति भत्ता आहरित करेंगी।

जसवंत सिंह
उप महानिदेशक (कार्मिक)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 9 जनवरी 2007

सं. 18/1/2/2006-ई.आर.--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर,
श्री पी. के. घोष ने दिनांक 30 नवम्बर, 2006 के अपराह से परमाणु
ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) से उत्कृष्ट वैज्ञानिक के पद का
कार्यभार त्याग दिया है।

के. पद्मनाभन
अवर सचिव

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400 094, दिनांक 8 जनवरी 2007

सं. भापाबो/भर्ती/26(2)/2007/67--राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) तथा भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु/बड़ौदा/तालचेर), परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई के निम्नलिखित समूह "क" अधिकारियों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2006 से स्थाई रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	वर्तमान ग्रेड	इकाई	स्थायी रूप में नियुक्ति की ग्रेड
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	अवधेश कुमार द्विवेदी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	भापाबो (कें.का)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
2.	गिरिश चन्द्र जोशी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापाबो (कें.का)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
3.	विकी गौतम	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापाबो (कें.का)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
4.	कु. अनन्या सेन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापाबो (कें.का)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
5.	बुररागोनि अनिल कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापा सं. (मणुगुरु)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
6.	चिंतलपाटि गौतम	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापा सं. (मणुगुरु)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
7.	संतोष कुमार देवंगन	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापा सं. (मणुगुरु)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
8.	नितीश परसाई	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापा सं. (बड़ौदा)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
9.	रामानुज परिहार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापा सं. (बड़ौदा)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
10.	लैशराम भोई सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	भापा सं. (तालचेर)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी
11.	डॉ. प्रदीप रूपचंद्र गोडबोले	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा)	भापा सं. (तालचेर)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा)

आर. के. सैनी
निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

मुम्बई-400094, दिनांक 11 जनवरी 2007

सं. भापाबो/भर्ती/1(44)बी/2007/75--मुख्य कार्यकारी, भापाबो श्री मोहन राव सुब्बा राव बट्टी, सहायक सुरक्षा अधिकारी(बी), आर एम पी, बीएआरसी, मैसूर को दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के (पूर्वाह) से आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में भारी पानी संयंत्र (बड़ौदा) में सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. जे. सयमन
प्रशासन अधिकारी

से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में प्रभारी वेधक के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा (समूह-ख) (राजपत्रित) नए वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- में अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

एस. के. सिन्हा
निदेशक (प्रशासन)

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

जल संसाधन मंत्रालय
(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स कोठरी इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

फरीदबाद, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

अहमदाबाद-380013, दिनांक 9 जनवरी 2007

सं 3-1579/06-इंजी स्था./645--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से श्री गिरिजा शंकर सेनापति को दिनांक 25.10.06 (पूर्वाह)

सं. 631/आर.ओ.सी./गुजरात/560/2006-07----कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है

कि इस तारीख से तीन महीने के बाद मैसर्स कोठारी इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं लिए गए तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

पी. एल. मलिक

कम्पनी रजिस्ट्रार

गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पांडिचेरी-605011, दिनांक 8 जनवरी 2007

सं.560(3)/2005—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

सं. कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम	रजिस्ट्रेशन दिनांक
1. 1777	मैसर्स अलफासिस साफ्टवेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	14.5.2004

एम. कण्णन
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
पांडिचेरी

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में।

कटक-753001, दिनांक 15 जनवरी 2007

सं.आर.के.सी./एस.ई.एस./560(5)/7426—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है :--

क्र. सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-0122	मैसर्स रम्भा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	15-0151	मैसर्स घोष नन्दी एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-0231	मैसर्स कलिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
4.	15-0294	मैसर्स झरना मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-0316	मैसर्स उत्कल साईकिल मैनुफैक्चरिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-0324	मैसर्स कलिंग एयरलाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-0337	मैसर्स कलिंग फार्ड्रे प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-0369	मैसर्स रूप राग प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-0441	मैसर्स रवोर्धा मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
10.	15-0445	मैसर्स उड़ीसा डायरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड
11.	15-0498	मैसर्स एशियन बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-0518	मैसर्स श्रीनिवास इंडस्ट्रीयल एन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-0531	मैसर्स नन्दन फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-0532	मैसर्स तुलसी सर्जिकल प्राईवेट लिमिटेड
15.	15-0534	मैसर्स उत्कल कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-0536	मैसर्स एस.डी.के. ऑटो एग्री मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-0539	मैसर्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कंपनी प्राईवेट लिमिटेड
18.	15-0542	मैसर्स सेवन स्टार ट्रेडर्स एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-0544	मैसर्स कलिंग एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
20.	15-0545	मैसर्स लाईम प्रोडक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
21.	15-0569	मैसर्स उत्कल स्टील सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-0571	मैसर्स उत्तम फैशन एण्ड इलेक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-0576	मैसर्स अरविंद रूरल इलेक्ट्रीकल्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-0577	मैसर्स उत्कल इंजीनियरिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-0578	मैसर्स माथेम इनोलिवस् प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-0581	मैसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स (उड़ीसा) प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-0599	मैसर्स परस सेविंग्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहनती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में।

कटक-735001, दिनांक 15 जनवरी 2007

सं. आर.ओ.सी./560(3)/7451--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा और यह सभी कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	15-0803	मैसर्स उड़ीसा ला हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-0804	मैसर्स ओम पिक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	15-0806	मैसर्स सेनापति केबल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	15-0827	मैसर्स प्राची साइन कम्पलेक्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	15-0829	मैसर्स उत्कल इंडस्ट्रीयल फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	15-0831	मैसर्स कश्यप एण्ड भारद्वाज प्राईवेट लिमिटेड
7.	15-0837	मैसर्स भारत इंजीनियरिंग एण्ड मशीनरी इक्वीपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	15-0842	मैसर्स खारवेला फाईनेन्स कं. प्राईवेट लिमिटेड
9.	15-0847	मैसर्स कलिंगा इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स कं. लिमिटेड
10.	15-0848	मैसर्स वन दुर्गा फार्मा मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड
11.	15-0849	मैसर्स नमीता एन्टर प्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
12.	15-0861	मैसर्स पाल कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	15-0862	मैसर्स फ्लोरेस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
14.	15-0868	मैसर्स मेराइन प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड
15.	15-0871	मैसर्स पॉयनियर लेदर वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	15-0877	मैसर्स लक्ष्मी प्रोसेसिंग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
17.	15-0879	मैसर्स एसोसिएटेड सोसल वेलफेयर एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड
18.	15-0888	मैसर्स उमा टेक्नीकल सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	15-0893	मैसर्स बत्रा पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	15-0895	मैसर्स आन्धा केबल प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
21.	15-0896	मैसर्स कलिंगा पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	15-0900	मैसर्स ईस्ट इंडिया फ्रिजर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	15-0901	मैसर्स नीलांचल सर्जिकल प्राईवेट लिमिटेड
24.	15-0904	मैसर्स जय जगन्नाथ फिल्मस् प्राईवेट लिमिटेड
25.	15-0910	मैसर्स श्री जगन्नाथ सिने इक्वीपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	15-0919	मैसर्स जेपुर लुड डिस्ट्रीलेशन प्राईवेट लिमिटेड
27.	15-0923	मैसर्स जनरल ट्रेड चेम्बर प्राईवेट लिमिटेड
28.	15-0925	मैसर्स अगिया-ट्रेड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
29.	15-0926	मैसर्स श्री श्री धबलेश्वर फिल्मस् एण्ड ट्रेडर प्राईवेट लिमिटेड
30.	15-0936	मैसर्स श्री जगन्नाथ मल्टी इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
31.	15-0946	मैसर्स लवली कं. प्राईवेट लिमिटेड
32.	15-0967	मैसर्स बर्मा फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	15-0968	मैसर्स लक्ष्मी सेरामिक्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
34.	15-0971	मैसर्स मिनर्वा फिल्मस प्राईवेट लिमिटेड
35.	15-0989	मैसर्स संगम मुवी प्राईवेट लिमिटेड
36.	15-1003	मैसर्स डियाजो प्रोसेसर्स लिमिटेड
37.	15-1005	मैसर्स उत्कल ऑक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड
38.	15-1006	मैसर्स इंडस्ट्रीयल लाइम एंड एलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	15-1008	मैसर्स समसेश्वरी मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	15-1021	मैसर्स कोनार्क ज्योति प्राईवेट लिमिटेड
41.	15-1030	मैसर्स एस. पी. आर. जे. प्राईवेट लिमिटेड
42.	15-1036	मैसर्स उड़ीसा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
43.	15-1041	मैसर्स उड़ीसा वनस्पति लिमिटेड
44.	15-1042	मैसर्स दर्शन खुंटिया कले प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	15-1062	मैसर्स निष्पोन (इंडिया) इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	15-1067	मैसर्स होटल उड़ीसा प्राईवेट लिमिटेड
47.	15-1107	मैसर्स मिडिया (उड़ीसा) प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
48.	15-1114	मैसर्स महेश्वरी फैब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड	75.	15-1286	मैसर्स प्रोजेक्ट कन्सलटेन्स ऑफ उड़ीसा प्राईवेट लिमिटेड
49.	15-1120	मैसर्स क्रैन्क केस ऑयल प्रोसेस प्राईवेट लिमिटेड	76.	15-1290	मैसर्स ममता ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	15-1121	मैसर्स उनियाग प्राईवेट लिमिटेड	77.	15-1292	मैसर्स एलको विडियो लिमिटेड
51.	15-1123	मैसर्स इलेक्ट्रो कम्पस प्राईवेट लिमिटेड	78.	15-1304	मैसर्स सुनील रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	15-1138	मैसर्स नारायणी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	15-1309	मैसर्स श्री देवी कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	15-1143	मैसर्स सिसको ग्लास इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	80.	15-1316	मैसर्स पट्टनायक ट्रेडर्स एण्ड लियासनर्स प्राईवेट लिमिटेड
54.	15-1147	मैसर्स कोस्टल तार प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	81.	15-1321	मैसर्स निकूजा फिल्मस् प्राईवेट लिमिटेड
55.	15-1154	मैसर्स विजया तारस प्राईवेट लिमिटेड	82.	15-1324	मैसर्स उड़ीसा लेदर एण्ड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
56.	15-1160	मैसर्स होटल सुशीला प्राईवेट लिमिटेड	83.	15-1331	मैसर्स बसंती टैक्सटाइल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	15-1161	मैसर्स इंडियन डिजाइनर्स एण्ड कन्सल्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड	84.	15-1337	मैसर्स कोनार्क केमोक्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	15-1169	मैसर्स शान्ति प्राईवेट लिमिटेड	85.	15-1342	मैसर्स रिप्रोकैम इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
59.	15-1182	मैसर्स होटल रश्मी प्राईवेट लिमिटेड	86.	15-1343	मैसर्स केम्फी प्राईवेट लिमिटेड
60.	15-1185	मैसर्स उड़ीसा कार्कसलिंग एण्ड रिमोर्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	87.	15-1349	मैसर्स नीलगिरी मिनीकेम प्राईवेट लिमिटेड
61.	15-1192	मैसर्स क्वीन्स होटल प्राईवेट लिमिटेड	88.	15-1355	मैसर्स मार्टन फैब्रिकेशन प्राईवेट लिमिटेड
62.	15-1211	मैसर्स एस. एन. कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड	89.	15-1360	मैसर्स जगन्नाथ कॉफी प्लांटेशन प्राईवेट लिमिटेड
63.	15-1221	मैसर्स जनभाषा प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड	90.	15-1361	मैसर्स संगीता फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	15-1225	मैसर्स ओरिटीन प्राईवेट लिमिटेड	91.	15-1375	मैसर्स उड़ीसा कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	15-1227	मैसर्स मिस्टास एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड	92.	15-1383	मैसर्स प्राइम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
66.	15-1231	मैसर्स हाबीया हाऊस (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	93.	15-1384	मैसर्स पारादीप कंसल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
67.	15-1235	मैसर्स नन्दीघोष डिस्टलरीज प्राईवेट लिमिटेड	94.	15-1389	मैसर्स अनुकूल सिक्योरिटीज एण्ड डिटेक्टिव प्राईवेट लिमिटेड
68.	15-1247	मैसर्स कोरोमंडल इंजीनियरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	95.	15-1390	मैसर्स कोनार्क रिड एण्ड हैल्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
69.	15-1256	मैसर्स टाइम पोर्टरी वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	96.	15-1394	मैसर्स अन्नापूर्णा सिक्यूरिटीज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
70.	15-1260	मैसर्स रूरल कॉलेज ऑफ फिजिशियन ऑफ होम्योपैथी प्राईवेट लिमिटेड	97.	15-1395	मैसर्स जीवन ज्योति कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
71.	15-1261	मैसर्स होटल जगन्नाथ प्राईवेट लिमिटेड	98.	15-1397	मैसर्स हेमा कृष्णा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	15-1265	मैसर्स हल लैंड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	99.	15-1412	मैसर्स क्लासिक डाइज प्राईवेट लिमिटेड
73.	15-1278	मैसर्स देवगाँव कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	100.	15-1415	मैसर्स ऊमा प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
74.	15-1284	मैसर्स सार्वीक जी-लेटिन प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
101.	15-1418	मैसर्स कोनार्क सिक्युरिटी सर्विसेज (उड़ीसा) प्राईवेट लिमिटेड
102.	15-1422	मैसर्स एसोसिएटेड पिस्टोन्स लिमिटेड
103.	15-1426	मैसर्स केसिंगा पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	15-1433	मैसर्स तोसाली लेमिनेट्स लिमिटेड
105.	15-1438	मैसर्स रोसेटी फाइन केमिकल्स लिमिटेड
106.	15-1452	मैसर्स जगन्नाथ मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
107.	15-1455	मैसर्स दुसी एसोसियेटेड्स प्राईवेट लिमिटेड
108.	15-1457	मैसर्स मेक आल मशीन टूल प्राईवेट लिमिटेड
109.	15-1463	मैसर्स आर.आर. फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	15-1483	मैसर्स उत्कल टेलि लिफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	15-1496	मैसर्स एम. टी. कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
112.	15-1510	मैसर्स एक्सक्लूसिव फार्मास्यूटिकल प्राईवेट लिमिटेड
113.	15-1516	मैसर्स गोल्डन हापर्स प्राईवेट लिमिटेड
114.	15-1517	मैसर्स इनकोटरस प्राईवेट लिमिटेड
115.	15-1526	मैसर्स एलाइड सिक्युरिटीज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
116.	15-1530	मैसर्स बनदुर्गा टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
117.	15-1534	मैसर्स दास केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
118.	15-1549	मैसर्स आर. बी. मिश्रा एण्ड सन्स प्राईवेट लिमिटेड
119.	15-1555	मैसर्स सुप्रीम इंजीनियरिंग एण्ड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
120.	15-1556	मैसर्स हरिशंकर सिमेंट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
121.	15-1558	मैसर्स बालाजी ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
122.	15-1568	मैसर्स उत्कल दसप्पूरीसेसन लिमिटेड
123.	15-1574	मैसर्स जी. एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
124.	15-1583	मैसर्स भीना प्लास्टीक्स एण्ड लेमिनेसन प्राईवेट लिमिटेड
125.	15-1586	मैसर्स उत्कल सिक्युरिटीज एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड

बी. मोहन्ती
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 11th January 2007

No. DP Pers.II/2007/009/A-34012/7/2005—Shri D.N. Kapoor, Personal Assistant on his promotion, has taken over the charge of the post of Private Secretary, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 4.1.2007.

S. K. RANJAN
Admin. Officer (Pers.)

The 12th January 2007

No. DP Pers. I/2007/00010/A20023/6/83—Shri Om Prakash relinquished charge of the post of Sr. Public Prosecutor, CBI with effect from 31.12.2006 (A.N.) on attaining the age of superannuation.

S. K. RANJAN
Admin. Officer (Pers.)

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110 003, the 4th January 2007

No. A-VI-1/2006-Pers-I(AC)—The President is pleased to appoint the following candidates as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 in a temporary capacity until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force :—

S.No.	Name of Officer	Date of Joining
1.	Shri Pranav Anand Jha	01.12.2006 (FN)
2.	Shri Md Nehal Alam	01.12.2006 (FN)
3.	Shri Raj Kumar Majillya	01.12.2006 (FN)
4.	Shri Anurag Raj	02.12.2006 (FN)
5.	Shri Mithilesh Kumar	02.12.2006 (FN)
6.	Shri Baljinder Singh	01.12.2006 (FN)
7.	Shri Nishant Kumar Choudhary	01.12.2006 (AN)
8.	Shri Girish Ch Singh Sontiyal	01.12.2006 (FN)
9.	Shri Jagdev Singh	01.12.2006 (FN)
10.	Shri Vijay Kumar Sahu	01.12.2006 (AN)
11.	Shri Adil Hassan	01.12.2006 (FN)
12.	Shri Arvind Kumar Choubey	01.12.2006 (AN)
13.	Shri Niraj Kumar	01.12.2006 (FN)
14.	Shri Omnath Chattaraj	01.12.2006 (FN)
15.	Shri Jangsher	01.12.2006 (FN)
16.	Shri Suresh Kumar Yadav	05.12.2006 (AN)
17.	Shri Lakshmi Narayan Upadhyay	01.12.2006 (AN)

2. They have reported to ISA, CRPF, Mount Abu for training and have taken over the charge of their post on the dates noted against their names.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

The 8th January 2007

Reference to our Notification of even no. dated 07 April 2006.

No. O.II.4025/06-PF-Pers-I—Consequent on selection to the post Assistant Manager (Security) in SBI Group, resignation from Govt. service submitted by Shri Sant Singh, Dy. Comdt. (IRLA No. 4025) of 104 Bn RAF/CRPF has been accepted by the competent authority w.e.f. 01.04.2006 (FN). The officer has joined SBI Patiala as Asstt. Manager (Security) on 10.04.2006 FN. He has been relieved from his post on 01.04.2006 (FN). Accordingly the date of relief from CRPF to till date of joining in SBI of Patiala i.e. w.e.f. 01.04.2006 to 09.04.2006 total 09 days has been regularized as 09 days Earned Leave vide 104 RAF Bn O/O No. G.II.1/2006-104-CB dated 08.12.2006. Hence, his name deleted from the strength of the force may be read as under :—

For

Read

S.O.S. from 01.4.2006 (FN) S.O.S from 10.04.2006 (FN)

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

The 10th January 2007

No. O.II.3712/06-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Nagsen Prakash Sakhare as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 6.12.06 till further order. He is posted to 145 Bn.CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

The 12th January 2007

No. O-II-6460/2007-Pers-I—Consequent on acceptance of notice for Voluntary Retirement from service, Shri Vinay Kumar Singh, Asstt Comdt (IRLA : 6460) of 172 Bn CRPF relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st January 2007. Accordingly, he was struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 1.01.2007 (FN).

RANJIT SINGH
Addl. DIGP (Pers-I)

New Delhi-110 003, the 9th January 2007

No. P. VII-4/2006-Pers-3—Consequent on his retirement from Government Service on attaining the age of

Superannuation, Shri Bhanwar Lal (IRLA-4656) of O/O ADIGP, GC, CRPF, Neemuch, has relinquished charge of the post of Adm Officer in the after noon of 30.11.2006.

K. K. SIVA PRASAD
Addl. DIGP (Pers-III)

The 10th January 2007

No. P.VII-4/2006-Pers-3—The Government of India regrets to notify the death of Shri Ashiq Ali (IRLA-4742) Senior Private Secretary to Addl DG (HQ) of Directorate General, CRPF, New Delhi on 20.12.06 (AN) due to Cardiac arrest. Accordingly he is struck off the strength of Dte. General, CRPF, New Delhi w.e.f. the same date i.e. 20.12.06 (Afternoon).

K. K. SIVA PRASAD
Addl. DIGP (Pers-III)

**DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**
New Delhi-110 003, the 12th January-2007

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.I/05—The President is pleased to appoint the following Deputy Commandant on regular promotion to the rank of Commandant in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandant on regular basis
1.	Shri Sanjay Kumar	RSTPS Ramagundam	29.12.2006

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.I/06—The President is pleased to appoint the following Assistant Commandants on regular promotion to the rank of Deputy Commandant in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandant on regular basis
1	2	3	4
	(S/Shri)		
1.	B.S. Vashisht	BIOP DEP-05	14.11.2006
2.	Ashok Tikku	VIP Security New Delhi	01.12.2006

1	2	3	4
3.	Dalel Singh	GBS Delhi	27.11.2006
4.	M.S. Pathania	MBR Meghataburu	23.11.2006 (A/N)
5.	A.K. Chaturvedi	RTC Barwaha	11.12.2006
6.	Yoginder Singh	GBS Delhi	14.11.2006
7.	S.M. Rao Dixit	Mumbai Airport	06.12.2006
8.	Anwar Khan	8th Res Bn Kisthwar	20.12.2006 (A/N)
9.	Rupinder Singh	2nd Res Bn Delhi	18.12.2006
10.	Arun Rai Kaushik	NES HQrs Kolkata	26.12.2006
11.	Ravinder Kumar Sharma	Gaya Airport	04.12.2006
12.	D. D. Yadav	THDC Tehri	18.12.2006
13.	V.K. Sharma	Rajkot Airport	04.12.2006
14.	S.S. Negi	Airport Cell FHQ	24.11.2006

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers-I/07—The President is pleased to appoint Shri Sundar Vaddi, Assistant Commandant to the rank of Deputy Commandant in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/-. He is posted at CISF Unit BSP Bhilai, where he assumed the charge of Deputy Commandant in the forenoon of 8th Dec' 2006.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers. I/08—The President is pleased to appoint the following Commandant on regular promotion to the rank of Commandant in the pay scale of Rs. 12,000-375-16500/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandant on regular basis
1.	Smt. Sahima Hanan Datta	2nd Res Bn Mahipalpur, New Delhi	19.12.2006

Note :—The above promotion will be subject to the outcome of court case CWP No. 954/2006 filed by Shri NK Bhatnagar in the Hon'ble Delhi High Court.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./CISF

The 15th January 2007

No. E-16015/(2)/2007/Pers.I/09—The President is pleased to appoint the following Commandant on regular promotion to the rank of Senior Commandant in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Commandant on regular basis
1.	Shri C.K. Bisht	BSL Bokaro	01.01.2007

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./(C.I.S.F.)

No. E-28017/Noti/2007/Pers. II/131—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri S. N. Manjhi, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant/JAO, DM Battalion, Mundali, in the afternoon of 31.12.2006.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./(C.I.S.F.)

The 16th January 2007

No. E-28017/6/Noti/2007/Pers.II/161—Consequent upon his voluntary retirement from Govt. service under rule-48A of CCS (Pension) Rules, 1972, Shri S. Srinivasan, relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant/JAO, CISF Group H. Qrs., Chennai in the forenoon of 01.01.2007.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./(C.I.S.F.)

No. E-28017/6/Noti/2007/Pers.II/162—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri M K Das, relinquished the charge of the post of Commandant, CISF Unit, D S P Durgapur in the afternoon of 31.12.2006.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./(C.I.S.F.)

No. E-28017/6/Noti/2007/Pers.II/163—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri M Sreenivasan, relinquished the charge of the post of Senior Commandant, CISF Unit, FACT, Udyogamandal in the afternoon of 31.12.2006.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen./(C.I.S.F.)

MINISTRY OF FINANCE

INDIA SECURITY PRESS

A UNIT OF

SECURITY PRINTING & MINTING CORPORATION OF INDIA LIMITED

Nashik Road-422 101, the 8th January 2007

Sub. : Appointment of Deputy Control Officer on ad-hoc basis-reg.

No. 925/G/EST-18-1—The following Inspectors Control have been promoted to the post of Deputy Control officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 on ad-hoc basis w.e.f. 02.01.2007 upto 31.03.2007 or till the posts are filled on regular basis, whichever is earlier.

1. Mr. R.M. Khot.
2. Mr. J.K. Amesar.

PRAKASH NARAYAN
Gen. Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110 002, the 10th January 2007

No. 87-GE-I/13-2006—The following IA & AS officer has retired on superannuation from Government service from the date shown against his name.

1. Shri Man Singh Retired on superannuation w.e.f. 31.12.2006 (AN)

DEEKAP NARAIN
Asstt. Comptr. and Auditor General (P)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT CENTRAL REVENUES

New Delhi-110 002, the 15th January 2007

No. Admn.I/O.O. No.-251—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi is pleased to promote the following Section Officers as Assistant Audit Officers (Group 'B') in a temporary capacity in the pay scale of Rs. 7450-225-11500 w.e.f. 02.01.2007 (F/N) until further orders :—

The promotees may send their option for fixation of pay to the Establishment Section within one month of the date of their promotion.

Sl.No.	Name	Emp. code no.
1	2	3
	S/Shri	
1.	Smt. Gowri Sivaraman	0640
2.	Maha Prasad	0669
3.	Bachu Singh	0752

1	2	3
4.	Virender Singh Negi	0763
5.	Raj Pal	1175
6.	Yogender Bisht	0847
7.	Brahm Singh Kain	0861
8.	Sandeep Sharma	1236
9.	Satish Kumar	1243
10.	Sanjeev Kumar Verma	1251
11.	Atul Bhagat	1220
12.	Parveen Kumar Tuteja	0956
13.	Kamal Sood	0924
14.	Ashok Kumar	1373
15.	Smt. Sugandhi Ramanathan	1213
16.	Smt. Sunita Chauhan	1181
17.	Kumar Dutt Sharma	1248
18.	Ishwar Chand	1025
19.	Sanjeev Kumar	1028
20.	Smt. Seema Mendiratta	1318
21.	Biplab Kumar Sahoo	1402

K. PRASAD
Dir. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 30th November 2006

No. Admn.I/1038-XXV/2006-07/1203—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to appoint Shri Ajit Kumar Ghosh, Asstt. Accounts Officer as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 01.12.2006 (FN) or from the date of taking over his charge whichever is later.

On promotion his pay will be fixed under F.R. 22 I(a)(i) and therefore he may exercise his option in this regard within the month from the date of issue of this order.

His posting order will be issued separately.

[Authority : A.G.'s order dated 30.11.2006]

J. R. BISWAS
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

No. Admn.I/1366-II/2006-07/1204—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote Shri Prakash Chandra Basu, Accounts Officer to the higher

functional grade of Senior Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from 1.12.2006 (FN) or from the date of taking over charge whichever is later.

On promotion his pay will be fixed under F.R. 22 I(a)(i) and therefore, he may exercise his option in this regard within one month from the date of issue of this order.

[Authority : A.G.'s order dated 30.11.2006]

J. R. BISWAS
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

The 29th December 2006

No. Admn.I/1038-XXIV/2006-07/340—The Accountant General (A&E), West Bengal is pleased to promote Shri Samir Kumar Palit, Assistant Accounts Officer and Shri Swapan Kumar Barat, Assistant Accounts Officer as Accounts Officers in the scale of Rs. 7,500-250-12,000/- with effect from 02.01.2007 (FN) or the date of their taking over their charges whichever is later.

Shri Palit and Shri Barat on their promotion as Accounts Officers may exercise their option under F.R. 22 I(a)(i) within one month from the date of issue of this order for fixation of pay.

Their posting orders will be issued separately.

[Authority : A.G.'s order dated 7.12.2006]

J. R. BISWAS
Dy. Accountant Gen. (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), WEST BENGAL

Kolkata-700 001, the 10th January 2007

No. Admn.III/Pen/5-2/vol. VI/390—Shri Bhimdeb Mandal, Sr. Audit Officer, of this office retired from service on superannuation on 30.11.2006 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
DAG (Admn.)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE
ACCOUNTS

New Delhi-110 066, the 12th January 2007

No. AN-I/1172/1/XVII—The President is pleased to appoint the under mentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, to the Senior Administrative Grade (Scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400) of that Service, with effect from the dates indicated against their names and until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date from which appointed to the Senior Administrative Grade	Remarks
	S/Shri		
1.	(Dr.) (Kum.) Gurjot K Sondhe	11.05.2006	Under 'Next Below Rule'
2.	Marella Anjaneyulu	11.05.2006	
3.	M.A. Lincoln	11.05.2006	
4.	Nawal Kishore	11.05.2006	Under 'Next Below Rule'
5.	Navneet Verma	11.05.2006	Under 'Next Below Rule'
6.	Dr. G.D. Pungle	12.05.2006	Under 'Next Below Rule'
7.	Alok Chaturvedi	10.05.2006	
8.	D.C.S. Negi	11.05.2006	
9.	R.K. Choudhary	12.05.2006	
10.	Sanjeev Kumar	22.05.2006	
11.	Avinash Dikshit	22.05.2006	Under 'Next Below Rule'
12.	(Smt.) Anuradha Prasad	22.05.2006	Under 'Next Below Rule'
13.	Rakesh Sehgal	22.05.2006	Notional
14.	(Smt.) Rasika Chaube	22.05.2006	Under 'Next Below Rule'
15.	R.N. Dash	22.05.2006	Under 'Next Below Rule'
16.	S.P.N. Singh	22.05.2006	
17.	Praveen Kumar	11.05.2006	
18.	S.G. Dastidar	11.05.2006	

VISHVAJIT SAHAY
Sr. Dy. CGDA (Admn.)

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

ORDNANCE FACTORY BOARD

Kolkata, the 2nd January 2007

No. 07/A/G/2007—The President of India is pleased to confirm the following officers in the grade of Junior Time Scale i.e. Asstt. Director/Asstt. Works Manager in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in IOFS with effect from the date as shown against each :—

Name	Per. No.	Designation	Dt. in IOFS	Date in Confirmation
S/Shri				
Sankar Thammu Dola	991946	JTS	1.7.02	24.12.05
Hantal Bhimasesu	991926	JTS	1.1.02	26.05.06
Moorthy B Krishna	991962	JTS	1.1.03	24.12.05
Narendra N N	991985	JTS	1.7.03	02.01.06
Ngachan Z	991964	JTS	1.7.03	16.12.05
Shrivastava MS Urmi	991993	JTS	1.7.03	02.01.06
Sulaiman S Siddique	991998	JTS	1.7.03	02.01.06
Tripathi Rajesh Prasad	992029	JTS	1.7.03	02.01.06
Srivastava Prem Chand	992030	JTS	1.7.03	02.01.06
Kumar Ashutosh	992028	JTS	1.7.03	02.01.06
Agarwal Amit Kumar	992032	JTS	1.7.03	02.01.06
Yadav Kulveer Singh	992034	JTS	1.7.03	02.01.06
Gaur Vaibhav Kumar	992035	JTS	1.7.03	02.01.06
Janghel Santosh Kumar	992037	JTS	1.7.03	02.01.06
Rao Paidi Annajee	992038	JTS	1.7.03	02.01.06
Kumar Pawan	992039	JTS	1.7.03	02.01.06
Mecna Kamal Singh	991969	JTS	1.7.03	16.12.05
Kujur Rohit Rajiv P	992021	JTS	1.7.03	02.01.06
Supe Manoj Maruti	992023	JTS	1.7.03	02.01.06
Pattanayak Pravu Kalyana	992042	JTS	1.7.03	01.07.06
Sharma Satish	992051	JTS	1.7.03	01.07.06
Kumar Amit	992045	JTS	1.7.03	01.07.06

PREM PRAKASH

Dy. Dir/G

For Dir. Gen. Ordnance Factories

MINISTRY OF MINES

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 8th January 2007

No. 19011/304/2006-Estt.—App "Shri H.K. Dasgupta, Dy. Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 31.12.2006 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR

Asstt. Admn. Officer

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700 016, the 12th December 2006

No. 2223A/A-35018/CVO/2006/19A—On the recommendations of the Department of Personnel & Training, the President is pleased to appoint Smt. Arti Srivastava, Indian Ordnance Factory Services (90) to the post of Chief Vigilance Officer, Geological Survey of India, Central

Headquarters, Kolkata, on deputation for a period of three (3) years w.e.f. 15.11.2006 or until further orders, whichever event takes place earlier.

Smt. Arti Srivastava will draw her grade pay in the parent organization in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,400/- plus deputation allowance as admissible from the date of joining as Chief Vigilance Officer in Geological Survey of India.

JASWANT SINGH
Dy. Dir. Gen. (Personnel) & H.O.D., CHQ

(DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY)

Mumbai-400 001, the 9th January 2007

No. 18/1/2/2006-ER—Consequent on attaining the age of superannuation, Shir P.K. Ghosh, has relinquished the charge of the post of Outstanding Scientist in the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the afternoon of November 30, 2006.

K. PADMANABHAN
Under Secy.

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 8th January 2007

No. HWB/R/26(2)/2007/67—The President is pleased to appoint the following Group “A” Officers of Heavy Water Board (Central Office) & Heavy Water Plant (Manuguru/Baroda/Talcher), Department of Atomic Energy, Mumbai in a substantive capacity with effect from 1st October 2006.

Sl. No.	Name of the Officers	Present Grade	Unit	Grade in which appointed substantively.
	S/Shri			
1.	Awadesh Kumar Dwivedi	Scientific Officer/D	HWB (C.O.)	Scientific Officer/D
2.	Girish Chandra Joshi	Scientific Officer/C	HWB (C.O.)	Scientific Officer/C
3.	Vicky Gautam	Scientific Officer/C	HWB (C.O.)	Scientific Officer/C
4.	Kum. Ananya Sen	Scientific Officer/C	HWB (C.O.)	Scientific Officer/C
5.	Burragoni Anil Kumar	Scientific Officer/C	HWP (Manuguru)	Scientific Officer/C
6.	Chintalapati Goutham	Scientific Officer/C	HWP (Manuguru)	Scientific Officer/C
7.	Santosh Kumar Dewangan	Scientific Officer/C	HWP (Manuguru)	Scientific Officer/C
8.	Neetesh Parsai	Scientific Officer/C	HWP (Baroda)	Scientific Officer/C
9.	Ramanuj Parihar	Scientific Officer/C	HWP (Baroda)	Scientific Officer/C
10.	Laishram Bhoi Singh	Scientific Officer/C	HWP (Talcher)	Scientific Officer/C
11.	Dr. Pradeep Rupchandra Godbole	Scientific Officer/C (Medical)	HWP (Talcher)	Scientific Officer/C (Medical)

R. K. SAINI
Dir. (P&A)

Mumbai-400 094, the 11th January 2007

No. HWB/R/1(44)/B/2007/75—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Mohan Rao Subba Rao Badri, Assistant Security Officer (B), RMP, BARC, Mysore as Security Officer in Heavy Water Plant (Baroda) in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500 from the forenoon of 26th October, 2006 until further orders.

J. J. SIMON
Admin. Officer

MINISTRY OF WATER RESOURCES

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 21st December 2006

No. 3-1579/2006-Engg. (Estt)-8057—On the recommendation of the U.P.S.C. Sh. Girija Shankar Senapati is appointed to the post of Driller-in-Charge Group-B (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- in the Central Ground Water Board on temporary basis w.e.f. 25.10.2006 (FN).

S. K. SINHA
Dir. (Admin.)

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Kothari Industries Private Limited

Ahmedabad-380 013, the 9th January 2007

No. 04-631 ROC (Guj) U/s. 560/2006/8832/07—Notice is hereby given that pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Kothari Industries Private Limited, unless cause is shown to contrary, the name of the company will be struck off from the Register and said company will be dissolved.

P. L. MALIK
Asstt. Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alfasy Software Services Private Limited

Pondicherry-605 011, the 8th January 2007

No. 1777/S.560(3)/2006—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the company M/s. Alfasy Software Services Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said company will be dissolved.

M. KANNAN
Registrar of Companies
Pondicherry

In the matter of the companies Act, 1956 and of the
following Companies

Cuttack-753 001, the 15th January 2007

No. ROC/SEC.560(5)/7426—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of the section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register of the Registrar of Companies and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	No. of Company	Name of Company
1	2	3
1.	15-000122	M/s. Ramba Industries Limited
2.	15-000151	M/s. Ghosh Nandy & Co. Private Limited
3.	15-000231	M/s. Kalinga Construction Co. Private Limited
4.	15-000294	M/s. Jharna Mills Private Limited

1	2	3
5.	15-000316	M/s. Utkal Cycle Manufacturing Co. Private Limited
6.	15-000324	M/s. Kalinga Air Lines Private Limited
7.	15-000337	M/s. Kalinga Foundry Private Limited
8.	15-000369	M/s. Rupa Raga Private Limited
9.	15-000441	M/s. Khurda Metal Industries Limited
10.	15-000445	M/s. Orissa Diary Products Limited
11.	15-000498	M/s. Asian Builders Private Limited
12.	15-000518	M/s. Sreenivas Industrial Enterprises Private Limited
13.	15-000531	M/s. Nandan Food Products Private Limited
14.	15-000532	M/s. Tulsi Surgicals Private Limited
15.	15-000534	M/s. Utkal Constructions Private Limited
16.	15-000536	M/s. SDK Auto Agro Manufacturing Co. Private Limited
17.	15-000539	M/s. Agricultural Development Co. Private Limited
18.	15-000542	M/s. Sevenstar Traders & Chemicals Private Limited
19.	15-000544	M/s. Kalinga Exports Limited
20.	15-000545	M/s. Lime Products (India) Limited
21.	15-000569	M/s. Utkal Steel Syndicate Private Limited
22.	15-000571	M/s. Uttam Fan & Electricals Private Limited
23.	15-000576	M/s. Arbind Rural Electrical Industries Private Limited
24.	15-000577	M/s. Utkal Engineering & Investment Private Limited
25.	15-000578	M/s. Mathem Inolics Private Limited
26.	15-000581	M/s. United Engineers (Orissa) Private Limited
27.	15-000599	M/s. Paras Savings & Finance Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following companies

Cuttack-753 001, the 15th January 2007

No. ROC/SEC.560(3)/7451—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the Register and the said companies will be dissolved.

Sl. No.	No. of Company	Name of Company
1	2	3
1.	15-000803	M/s. Orissa Law House Private Limited
2.	15-000804	M/s. Om Pictures Private Limited
3.	15-000806	M/s. Senapati Cable Works Private Limited
4.	15-000827	M/s. Prachi Cine Complex Private Limited
5.	15-000829	M/s. Utkal Industrial Finance Private Limited
6.	15-000831	M/s. Kashyap & Bhardwaj Private Limited
7.	15-000837	M/s. Bharat Engineering and Machinery Equipments Private Limited
8.	15-000842	M/s. Kharvela Finance Co. Private Limited
9.	15-000847	M/s. Kalinga Investment & Finance Co. Limited
10.	15-000848	M/s. Banadurga Pharma Machinery Private Limited
11.	15-000849	M/s. Namrita Enterprises Private Limited
12.	15-000861	M/s. Pal Consultants Private Limited
13.	15-000862	M/s. Florence (India) Private Limited
14.	15-000868	M/s. Marine Products of India Limited
15.	15-000871	M/s. Pioneer Leather Works Private Limited
16.	15-000877	M/s. Laxmi Processing House Private Limited
17.	15-000879	M/s. Associated Social Welfare & Investment Co. Limited
18.	15-000888	M/s. Uma Technical Ceramics Private Limited
19.	15-000893	M/s. Batra Paper Mills Private Limited
20.	15-000895	M/s. Andhra Cables Private Limited
21.	15-000896	M/s. Kalinga Paper and Board Mills Private Limited

1	2	3
22.	15-000900	M/s. East India Freezers Private Limited
23.	15-000901	M/s. Neelachal Surgical Private Limited
24.	15-000904	M/s. Jay Jagannath Films Private Limited
25.	15-000910	M/s. Sri Jagannath Cine Equipments Private Limited
26.	15-000919	M/s. Jeypore Wood Distillations Private Limited
27.	15-000923	M/s. General Trade-Chamber Private Limited
28.	15-000925	M/s. Argya-Tech Services Private Limited
29.	15-000926	M/s. Sri Sri Dhabaleswar Films and Traders Private Limited
30.	15-000936	M/s. Shri Jagannath Multi Industries Private Limited
31.	15-000946	M/s. Lovely Co. Private Limited
32.	15-000967	M/s. Barma Fasteners Private Limited
33.	15-000968	M/s. Laxmi Ceramic Industries Private Limited
34.	15-000971	M/s. Minarva Films Private Limited
35.	15-000989	M/s. Sangam Movie Private Limited
36.	15-001003	M/s. Diazo Processors Limited
37.	15-001005	M/s. Utkal Oxygen Private Limited
38.	15-001006	M/s. Industrial Lime & Allied Products Private Limited
39.	15-001008	M/s. Samaleswari Metals Private Limited
40.	15-001021	M/s. Konark Jyoti Private Limited
41.	15-001030	M/s. SPRJ Private Limited
42.	15-001036	M/s. Orissa Packaging Industries Private Limited
43.	15-001041	M/s. Orissa Vanspati Limited
44.	15-001042	M/s. Darsan Khuntia Clay Products Private Limited
45.	15-001062	M/s. Nippon (India) Electronics Private Limited
46.	15-001067	M/s. Hotel Orissa Private Limited
47.	15-001107	M/s. Media (Orissa) Private Limited
48.	15-001114	M/s. Maheswari Fabrics Private Limited
49.	15-001120	M/s. Crank Case Oil Processors Private Limited
50.	15-001121	M/s. Uniag Private Limited
51.	15-001123	M/s. Electro Comps Private Limited

1	2	3
52.	15-001138	M/s. Narayani Distributors Private Limited
53.	15-001143	M/s. Silco Glass Industries Private Limited
54.	15-001147	M/s. Coastal Tar Products Private Limited
55.	15-001154	M/s. Vijaya Tars Private Limited
56.	15-001160	M/s. Hotel Sushila Private Limited
57.	15-001161	M/s. Indian Designers and Construction Private Limited
58.	15-001169	M/s. Shanti Private Limited
59.	15-001182	M/s. Hotel Rashmi Private Limited
60.	15-001185	M/s. Orissa Calciling and Cementing Private Limited
61.	15-001192	M/s. Queen's Hotel Private Limited
62.	15-001211	M/s. S.N. Construction Private Limited
63.	15-001221	M/s. Janabhasa Printers and Publishers Private Limited
64.	15-001225	M/s. Oritron Private Limited
65.	15-001227	M/s. Vistas Advertising Private Limited
66.	15-001231	M/s. Haabia House (India) Private Limited
67.	15-001235	M/s. Nandighosh Distilleries Private Limited
68.	15-001247	M/s. Coromandal Engineering Co. Private Limited
69.	15-001256	M/s. Time Pottery Works Private Limited
70.	15-001260	M/s. Rural College of Physicians of Homoeopathy Private Limited
71.	15-001261	M/s. Hotel Jagannath Private Limited
72.	15-001265	M/s. Hul Land Resorts Private Limited
73.	15-001278	M/s. Deogaon Chemicals Private Limited
74.	15-001284	M/s. Sarbik Ge-Latine Private Limited
75.	15-001286	M/s. Project Consultants of Orissa Private Limited
76.	15-001290	M/s. Mamata Bricks Private Limited
77.	15-001292	M/s. Elco Vidio Limited
78.	15-001304	M/s. Sunil Resorts Private Limited
79.	15-001309	M/s. Shree Devi Chemicals and Pharmaceuticals Private Limited
80.	15-001316	M/s. Patnaik Traders and Laisoners Private Limited

1	2	3
81.	15-001321	M/s. Nikunja Films Private Limited
82.	15-001324	M/s. Orissa Leather and Chemicals Private Limited
83.	15-001331	M/s. Basanti Textile Mills Private Limited
84.	15-001337	M/s. Konark Chemocrafts Private Limited
85.	15-001342	M/s. Reprochem Industries Private Limited
86.	15-001343	M/s. Chemphi Private Limited
87.	15-001349	M/s. Nilagiri Minichem Private Limited
88.	15-001355	M/s. Modern Fabrications Private Limited
89.	15-001360	M/s. Jagannath Coffee Plantation Private Limited
90.	15-001361	M/s. Sangeeta Food Products Private Limited
91.	15-001375	M/s. Orissa Carpets Private Limited
92.	15-001383	M/s. Prime (India) Private Limited
93.	15-001384	M/s. Paradeep Construction Private Limited
94.	15-001389	M/s. Anukul Security & Detective Co. Private Limited
95.	15-001390	M/s. Konark Reed & Heald Mfg. Co. Private Limited
96.	15-001394	M/s. Annapurna Security Service Private Limited
97.	15-001395	M/s. Jeevan Jyoti Company Private Limited
98.	15-001397	M/s. Hema Krishna Minerals Private Limited
99.	15-001412	M/s. Classic Dyes Private Limited
100.	15-001415	M/s. Uma Products Private Limited
101.	15-001418	M/s. Konark Security Services (Orissa) Private Limited
102.	15-001422	M/s. Associated Pistons Limited
103.	15-001426	M/s. Kesinga Paper Mills Private Limited
104.	15-001433	M/s. Toshali Laminates Limited
105.	15-001438	M/s. Rossetto Fine Chemicals Private Limited
106.	15-001452	M/s. Jagannath Machine Tools Private Limited
107.	15-001455	M/s. Dusi Associates Private Limited
108.	15-001457	M/s. Make All Machine Tool Private Limited

1	2	3
109.	15-001463	M/s. R.R. Fasterners Private Limited
110.	15-001483	M/s. Utkal Telelinks Limited
111.	15-001496	M/s. M.T. Construction Private Limited
112.	15-001510	M/s. Exclusive Pharmaceuticals Private Limited
113.	15-001516	M/s. Golden Hoppers Private Limited
114.	15-001517	M/s. Incotars Private Limited
115.	15-001526	M/s. Allied Security Service Private Limited
116.	15-001530	M/s. Banadurga Textiles Private Limited
117.	15-001534	M/s. Das Chemicals Private Limited
118.	15-001549	M/s. R.B. Mishra and Sons Private Limited

1	2	3
119.	15-001555	M/s. Supreme Engineering and Industries Private Limited
120.	15-001556	M/s. Harishankar Cement Industries Limited
121.	15-001558	M/s. Balajee Bricks Private Limited
122.	15-001568	M/s. Utkal Desulphurisation Limited
123.	15-001574	M/s. G.M. Cold Storage Private Limited
124.	15-001583	M/s. Mina Plastics & Lamination Private Limited
125.	15-001586	M/s. Utkal Security and Detective Services Private Limited

B. MOHANTY
Registrar of Companies
Orissa